

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ: के.मु.वि.2/जी-18

18.02.2022

विषय: अखिल भारतीय प्रथम आधारपर 11 नए उत्पादों के लिए संभावित मुहरांकन शुल्क का निर्धारण।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय प्रथम आधारपर 11 नए उत्पादों के लिए संभावित मुहरांकन शुल्क निर्धारित हुए हैं और ये सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा अनुपालन के लिए संलग्न हैं।

(शिवम आहुजा)
वैज्ञानिक सी

प्रमुख (के.मु.वि.2)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/के.मु.वि.1/के.मु.वि.3 को परिचालित

प्रतिलिपि: उच्च महानिदेशक (क्षेत्रीय) - कृष्याजानकारी के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Ref: CMD-2/G-18

18.02.2022

Subject: Fixation of Tentative Marking Fee for 11 new products on All India First Basis

Please find attached tentative Marking Fee for 11 new products on All India First Basis, duly approved by the Competent Authority for compliance by all ROs/BOs.

(Shivam Ahuja)
Scientist-C

Head CMD-2

Circulated to all ROs/BOs/CMD-1/CMD-3
Copy for kind Information to: DDGRs

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref.:CMD-2/G-18

Dated: 18.02.2022

Subject: Fixation of Tentative Marking Fee for 11 new products on All India First Basis

1. This has reference to the subject mentioned above and further refers to CMD-2 circular ref: CMD-2/G-18/Tentative MF dated 13 09 2018.

2. In this regard, please find the details of marking fee for 11 new products, tentatively approved by Competent Authority, as mentioned below. These Marking Fee rates are applicable with **immediate effect**.

SI No	IS No. (Product)	MMF for LS (in Rs)	MMF for MSME (in Rs)	Unit Rate (in Rs) for all Units	Unit
1	IS 17334 : 2019 (Medical textiles – Surgical gowns and surgical drapes – Specification)	161000	129000	0.20	1 Pc
2	IS 9573(Part 1): 2017 (Rubber hose for liquefied petroleum gas (Lpg) - Specification: Part 1 industrial application (Fourth Revision))	107000	86000	13.50	100 m
3	IS 9962 : 1981 (Specification for steel wire for needles)	83000	67000	10.00	1 MT
4	IS 17728 :2021 (Agro Textiles - High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Lay Flat Tube and Fittings for use in Rain Irrigation System – Specification)	168000	135000	1.50	100 m
5	IS 16653 : 2017 (Geosynthetics – Needle punched nonwoven geobags for coastal and waterways protection – Specification)	123000	99000	340	1 MT
6	IS 15030 : 2001 (Terephthalic acid – Specification)	74000	60000	4.20	1MT
7	IS 17480 : 2020 (High Density Polyethylene Multi Squeezable Tube for Packaging – Specification)	128000	103000	1.70	10,000 pieces
8	IS 7328 : 2020 (Specification for Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Third Revision))	54000	44000	6.60	1 MT
9	IS 3401 : 1992 (Silica gel - Specification (Third Revision))	115000	92000	0.20	1 Kg

10	IS 1180(Part 3):2021 (Natural/Synthetic Organic Ester Liquid Immersed Distribution Transformers)	142000	114000	3.00	1 KVA
11	IS 17546:2021 (Chlorinated Polyvinyl Chloride CPVC Fittings For Potable Hot and Cold Water Distribution Supplies)	171000	137000	4.00	100 pcs

3. This shall come into force with immediate effect.

(Shivam Ahuja)
Scientist-C

Head(CMD-2)

- Circulated to: 1. DDGRs
2. All ROs/BOs/CMD-1/CMD-3
3. ITSD - for hosting on BIS Intranet